



पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष
विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

उपरवारा सेक्टर -40, अटल नगर (छ0ग0)-493661
(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष / फ़ैक्स: 0771-2263234

website : www.cghealthuniv.com

E-mail : healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक / F-57 / NS-19 / डी.डी.यू.यू. / परीक्षा / 2019 7752

रायपुर, दिनांक- 22/08/19

// अधिसूचना //

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा आयोजित होने वाली एम.डी./एम.एस. मेडिकल एवं मेडिकल डिप्लोमा परीक्षाएं नवम्बर-2019/2 की समय-सारिणी, परीक्षा आवेदन शुल्क, परीक्षा आवेदन भरने की तिथि एवं परीक्षा केन्द्र निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

1. परीक्षा फार्म भरने का विवरण

क्र.	छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में फार्म भरने की अंतिम तिथि	महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	अंतिम तिथि के बाद विलम्ब शुल्क के साथ (प्रति दिवस प्रति छात्र रूपये 200/-)
1.	31.08.2019	05.09.2019	09.09.2019

2. परीक्षा आवेदन शुल्क :-

क्र.	परीक्षा का नाम	परीक्षा शुल्क	अंकसूची शुल्क	छात्र कल्याण शुल्क	शारीरिक शिक्षा शुल्क	अग्रेषण शुल्क	कुल योग
1.	एम0डी0 / एम0एस0 मेडिकल	9250.00	100.00	100.00	100.00	50.00	9600.00
2.	मेडिकल डिप्लोमा	5300.00	100.00	100.00	100.00	50.00	5650.00

3. समय-सारिणी :-

MD/MS Medical Examination

S.No.	Date Of Examination	Day	Subject	Time
1.	11-11-2019	Monday	Paper-I	01.00 PM to 04.00 PM
2.	13-11-2019	Wednesday	Paper-II	
3.	14-11-2019	Thursday	Paper-III	
4.	15-11-2019	Friday	Paper-IV	

Note :- Practicals to be held before 28 November 2019

Medical Diploma Examination

S.No.	Date Of Examination	Day	Subject	Time
1.	11-11-2019	Monday	Paper-I	01.00 PM to 04.00 PM
2.	13-11-2019	Wednesday	Paper-II	
3.	14-11-2019	Thursday	Paper-III	

Note :- Practicals to be held before 27 November 2019

4. परीक्षा केन्द्र का नाम:-

क्रं.	परीक्षा केन्द्र का नाम	परीक्षार्थियों के महाविद्यालय का नाम
1.	पं. जे.एन.एम. मेडिकल कालेज रायपुर (छ.ग.)	पं. जे.एन.एम. मेडिकल कालेज रायपुर (छ.ग.)

- टीप:-
- उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा आवेदन फार्म विश्वविद्यालय के वेबसाईट www.cghealthuniv.com से डाऊनलोड करके परीक्षा फार्म को छात्र से पूर्ण करवाकर फीस रूपये 100/- प्रति फार्म की दर से महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करायेगें।
 - पात्रता रखने वाले छात्रों का ही आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें, अपात्र छात्र/छात्रों का आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित न करें। अपात्र पाये जाने पर छात्रों का परीक्षा परिणाम निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
 - महाविद्यालय परीक्षा फार्म का भली-भौति सूक्ष्म परीक्षण कर विश्वविद्यालय को भेजे अन्यथा गलत होने पर महाविद्यालय की जवाबदारी होगी।
 - समस्त छात्र/छात्राओं को अपने परीक्षा आवेदन पत्र के साथ नामांकन पत्रक की स्लिप की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - समस्त छात्र/छात्राओं को अपने परीक्षा आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, परीक्षा आवेदन पत्र के शुल्क के साथ "Registrar, Pt. D.D.U. Memo. H.S. & Ayush University of C.G., Raipur" के पदनाम से "राष्ट्रीयकृत बैंक" का बैंक ड्राफ्ट अनिवार्य रूप से संलग्न करने पर ही परीक्षा आवेदन मान्य होगा। अथवा संबंधित महाविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की शुल्क का एकमेव बैंक ड्राफ्ट तैयार कर आवेदनों के साथ जमा करावें।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ. क्रमांक/F-⁵⁷/NS-19/ डी.डी.यू.यू./परीक्षा/2019 7753-59 रायपुर, दिनांक-22/08/19

प्रतिलिपि:-

- अधिष्ठाता, डी.यू.एच.एस., रायपुर से संबद्ध महाविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- कुलपति के सचिव, कुलसचिव के निज सहायक डी.यू.एच.एस., रायपुर।
- परीक्षा नियंत्रक/संचालक, कार्यालय डी.यू.एच.एस., रायपुर।
- विकास/गोपनीय/कम्प्यूटर शाखा (गोपनीय)/परीक्षा/लेखा विभाग, डी.यू.एच.एस., रायपुर। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- कम्प्यूटर शाखा, विश्वविद्यालय की वेबसाईट में अधिसूचना को अपलोड करने हेतु।
- संपादक, स्थानीय समाचार पत्रों को उपरोक्त अधिसूचना समाचार के रूप में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- अधिसूचना की जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाईट www.cghealthuniv.com का अवलोकन करें।



कुलसचिव